

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 19—जुलाई 25, 2014 (आषाढ़ 28, 1936)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19—JULY 25, 2014 (ASADHA 28, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2014

रक्षा (एम एस)

सं. 152, दिनांक 11 जून 2014—भारत के माननीय राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 17 अप्रैल 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

भारतीय नौसेना

राष्ट्रपति के प्रधान मानद एडीसी

एडमिरल आर. के. धवन, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, (01563ए)

रेवती रमन
अवर सचिव

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

सं. 153, दिनांक 12 जून 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 01 मार्च 2013 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० पूनम कारजी	एन आर-23007 डब्ल्यू	09 अप्रैल 1990
ले० इंग्लेश कुमारी	एन आर-23008 वाई	05 मार्च 1988
ले० कृपा एस विश्वनाथ	एन आर-23009 एफ	29 अक्टूबर 1991
ले० करुणा वी के	एन आर-23010 डब्ल्यू	10 दिसम्बर 1991
ले० कुसुम	एन आर-23011 वाई	22 अगस्त 1990
ले० रेशमा विजय	एन आर-23012 एफ	08 मई 1991
ले० सान्या के एस	एन आर-23013 के	13 अक्टूबर 1990
ले० डायना प्रिया तमंग	एन आर-23014 एम	16 जनवरी 1991
ले० मंजु चौधरी	एन आर-23015 पी	08 दिसम्बर 1991
ले० सपना कुमारी	एन आर-23016 एक्स	07 अगस्त 1991
ले० सारन्या एस नायर	एन आर-23017 ए	25 अप्रैल 1990
ले० पूजा शाक्या	एन आर-23018 एच	01 अगस्त 1991
ले० अनिता रानी साहु	एन आर-23019 एल	19 दिसम्बर 1991
ले० सौम्या वी एस	एन आर-23020 ए	31 मई 1987
ले० अस्वथी जी मेनन	एन आर-23021 एच	26 जनवरी 1990
ले० साधना चौधरी	एन आर-23022 एल	22 अप्रैल 1989
ले० सुप्रिया ई	एन आर-23023 एन	07 दिसम्बर 1990
ले० रेशमा आर कुमार	एन आर-23024 डब्ल्यू	21 मार्च 1989
ले० अमीना एस नाज	एन आर-23025 वाइ	04 मई 1991
ले० निशा कुमारी	एन आर-23026 एफ	13 अप्रैल 1987
ले० देविश्री के जी	एन आर-23027 के	16 अप्रैल 1990
ले० मुमताज रहीम वी के	एन आर-23028 एम	14 नवंबर 1990
ले० स्नेह शर्मा	एन आर-23029 पी	13 दिसम्बर 1990
ले० जयमोल जोस	एन आर-23030 के	15 मई 1991
ले० प्रीति सिंह चौहान	एन आर-23031 एम	14 अप्रैल 1991
ले० श्रेया सुब्बा	एन आर-23032 पी	03 दिसंबर 1991
ले० योगेश कुमारी	एन आर-23033 एक्स	02 फरवरी 1990
ले० महिमा अन्ना अचनकुंजु	एन आर-23034 ए	29 जून 1991
ले० उमा देवी	एन आर-23035 एच	08 अप्रैल 1990
ले० गुंजन उपाध्याय	एन आर-23036 एल	27 जुलाई 1988
ले० वैशाली मल्होत्रा	एन आर-23037 एन	21 फरवरी 1991
ले० रीतु सुसन मैथ्यू	एन आर-23038 डब्ल्यू	29 नवंबर 1991
ले० अमृता कुशवाहा	एन आर-23039 वाई	17 दिसम्बर 1990
ले० जीजि विजयन	एन आर-23040 एन	11 मई 1989
ले० चंचल	एन आर-23041 डब्ल्यू	27 दिसम्बर 1990

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० सान्या सिंह	एन आर-23042 वाई	16 सितंबर 1991
ले० काम्या	एन आर-23043 एफ	17 जून 1988
ले० सीमा सिंह	एन आर-23044 के	11 दिसम्बर 1988
ले० संगीता रॉय	एन आर-23045 एम	18 फरवरी 1991
ले० नीलम तिवारी	एन आर-23046 पी	16 सितंबर 1987
ले० मन्दीप कौर	एन आर-23047 एक्स	20 मई 1989
ले० पुष्पा नौडियाल	एन आर-23048 ए	17 दिसम्बर 1989
ले० सन्दीप कौर	एन आर-23049 एच	14 जून 1991
ले० मन्जु एस	एन आर-23050 एक्स	23 मई 1990
ले० रीना	एन आर-23051 ए	24 नवंबर 1989
ले० देबोलिना सिंह	एन आर-23052 एच	21 अगस्त 1991
ले० स्मिता रानी दाश	एन आर-23053 एल	12 मार्च 1987
ले० शिवा सोलंकी	एन आर-23054 एन	12 नवंबर 1988
ले० दीप्ति यादव	एन आर-23055 डब्ल्यू	25 जनवरी 1989
ले० वंदना	एन आर-23056 वाई	02 मार्च 1988
ले० एलिजाबेथ डलिया सी टी	एन आर-23057 एफ	09 मार्च 1990
ले० अरुणदीप कौर	एन आर-23058 के	07 जुलाई 1989
ले० श्रीरेखा आर नायर	एन आर-23059 एम	19 जनवरी 1991
ले० क्रिस्टीना मेरिन जॉन	एन आर-23060 एफ	20 सितंबर 1991
ले० मोनिया मामोदिया	एन आर-23061 के	02 अक्टूबर 1987
ले० शिल्पा एस पिल्लै	एन आर-23062 एम	19 दिसम्बर 1989
ले० रघिता कुमारी	एन आर-23063 पी	19 मई 1990
ले० शर्मा शनमुगन	एन आर-23064 एक्स	15 नवंबर 1990
ले० रीता रानी	एन आर-23065 ए	02 फरवरी 1987
ले० स्वाति	एन आर-23066 एच	10 फरवरी 1990
ले० बसुन्धरा गुरुंग	एन आर-23067 एल	04 जुलाई 1990
ले० मनिता सुब्बा	एन आर-23068 एन	03 जनवरी 1991
ले० दिव्या सन्नी मार्टिना	एन आर-23069 डब्ल्यू	14 अगस्त 1988
ले० रेनू शर्मा	एन आर-23070 एल	31 जुलाई 1990
ले० शीला कुमारी	एन आर-23071 एन	26 अक्टूबर 1987
ले० चेदन भुटिया	एन आर-23072 डब्ल्यू	18 मई 1990
ले० अनिशा मरियम वर्गिस	एन आर-23073 वाई	28 मार्च 1990
ले० नीलम कुमारी	एन आर-23074 एफ	20 अक्टूबर 1985
ले० रश्मि आर	एन आर-23075 के	20 अगस्त 1991

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 26 अगस्त 2013 (बी एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता एवं पदोन्नति 26 अगस्त 2012 से) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
1	2	3
ले० उषा तिवारी	एन आर-23247 एन	28 मार्च 1991
ले० सोनी रानी	एन आर-23248 डब्ल्यू	22 दिसंबर 1988
ले० अलका सघन	एन आर-23249 वाई	27 सितंबर 1989

1	2	3
ले० खुशबू शर्मा	एन आर-23250 एन	24 जुलाई 1991
ले० हनी हरिदास	एन आर-23251 डब्ल्यू	09 अक्टूबर 1991
ले० नीतू ए	एन आर-23252 वाई	08 दिसंबर 1991
ले० अल्मी वर्गिस	एन आर-23253 एफ	05 मार्च 1991
ले० पेरंगजेलुंग	एन आर-23254 के	16 फरवरी 1990
ले० स्नेहा लेल्लर	एन आर-23255 एम	11 जनवरी 1989
ले० मोनिका मैरी जॉर्ज मरियम्मा	एन आर-23256 पी	20 मई 1991
ले० विसमी वी नायर	एन आर-23257 एक्स	25 मई 1991
ले० सुजनी क्षेत्री	एन आर-23258 ए	17 दिसंबर 1991
ले० प्रीति राठी	एन आर-23259 एच	01 जुलाई 1991
ले० कोमल डोन्डियाल	एन आर-23260 एक्स	10 सितंबर 1991
ले० आकांक्षा सेमवाल	एन आर-23261 ए	26 अक्टूबर 1991
ले० रीता रानी	एन आर-23262 एच	07 मार्च 1989
ले० नेहा कुमारी वर्मा	एन आर-23263 एल	15 दिसंबर 1990
ले० रश्मि गोपी	एन आर-23264 एन	08 जुलाई 1989
ले० रीमा सक्सेना	एन आर-23265 डब्ल्यू	03 सितंबर 1988
ले० नेहा सिंह	एन आर-23266 वाई	09 फरवरी 1991
ले० कोशाधरी दीवान	एन आर-23267 एफ	08 दिसंबर 1988
ले० नयन दीक्षित	एन आर-23268 के	15 मई 1989
ले० पूजा सजन	एन आर-23269 एम	24 जुलाई 1990
ले० जैनी जोसफ	एन आर-23270 एफ	12 जुलाई 1990
ले० झूमा दत्ता	एन आर-23271 के	11 अगस्त 1986
ले० अतमजीत कौर	एन आर-23272 एम	29 अक्टूबर 1987
ले० श्रीलक्ष्मी एल	एन आर-23273 पी	13 अप्रैल 1990
ले० पूनम	एन आर-23274 एक्स	26 जुलाई 1991
ले० मीनाक्षी	एन आर-23275 ए	26 जुलाई 1987
ले० हिमानी सिंह	एन आर-23276 एच	19 जुलाई 1990
ले० मन्जु तोमर	एन आर-23277 एल	18 नवंबर 1990
ले० सुधा सिंह	एन आर-23278 एन	11 मार्च 1989
ले० इन्दु रॉबर्ट	एन आर-23279 डब्ल्यू	02 अक्टूबर 1991
ले० अवनी चन्द्रन आर	एन आर-23280 एल	09 अक्टूबर 1990
ले० शलीना सुब्बा	एन आर-23281 एन	23 फरवरी 1989
ले० शान्ती कुमारी	एन आर-23282 डब्ल्यू	02 जुलाई 1991

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 24 फरवरी 2013 (बी एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता एवं पदोन्नति 24 फरवरी 2012) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं -

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० मालती कुमारी	एन आर-23006 एन	15 जनवरी 1986

अल्प अवधि आयोग

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 15 मई 2013(एम एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता,(वेतनमान नियमित एवं पदोन्नति के लिये) 15 मई 2011 से) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं —

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० एस अमसा	एन एस-23125 के	07 मार्च 1980
ले० रजनी आर नायर	एन एस-23136 डब्ल्यू	01 मार्च 1985
ले० जोतीमनी के	एन एस- 23139 के	05 मई 1981
ले० स्पन्दना देवी बंगापान्दु	एन एस- 23143 एम	01 जून 1984
ले० पी रफीउल्लिहा	एन एस-23165 एल	10 जनवरी 1983
ले० नर्मदा एस	एन एस-23166 एन	20 मई 1985
ले० अनु रानी ए ऑस्टिन	एन एस-23179 एल	22 मार्च 1986
ले० तानी एस रंजन	एन एस-23227 ए	06 मई 1987
ले० दिव्या आनंद	एन एस-23232 एल	16 अगस्त 1986

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारी को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 01 मार्च 2013 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं —

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० बबिता	एन एस- 23077 पी	30 जून 1989
ले० रिचा कुमारी मिश्रा	एन एस- 23078 एक्स	20 अक्टूबर 1989
ले० अनिला एल	एन एस- 23079 ए	15 मार्च 1990
ले० मिंगमा ल्हामु शेरपा	एन एस- 23080 पी	10 जून 1991
ले० निशा नागरकोटी	एन एस- 23081 एक्स	31 मई 1988
ले० रशीदा बेगम	एन एस- 23082 ए	17 जुलाई 1987
ले० स्नेहलता	एन एस- 23083 एच	22 दिसम्बर 1987
ले० पार्वती पी	एन एस- 23084 एल	27 जुलाई 1991
ले० इयकपम एम्जिला देवी	एन एस- 23085 एन	05 अगस्त 1981
ले० रेनु	एन एस- 23086 डब्ल्यू	15 मार्च 1991
ले० सौरवी रॉय	एन एस- 23087 वाई	12 मई 1991
ले० संध्या कुमारी	एन एस- 23088 एफ	06 सितंबर 1987
ले० सोनी	एन एस- 23089 के	04 जुलाई 1988
ले० पदमा जे	एन एस- 23090 वाई	24 अगस्त 1990
ले० सयोंगिता कुमारी	एन एस- 23091 एफ	19 नवंबर 1984
ले० निस्सी पी सन्नी	एन एस- 23092 के	26 मई 1991
ले० ए एल लक्ष्मी	एन एस- 23093 एम	06 जून 1991
ले० शैली	एन एस- 23094 पी	26 अक्टूबर 1989
ले० स्मृति सेठी	एन एस- 23095 एक्स	14 सितंबर 1990
ले० सुजाता सिंह	एन एस- 23096 ए	03 अप्रैल 1989
ले० अर्पिता सरकार	एन एस- 23097 एच	20 जुलाई 1990
ले० सलोनी पॉल	एन एस- 23098 एल	30 सितंबर 1987

ले० श्रुति एस कुमार	एन एस— 23099 एन	28 मार्च 1989
ले० अरुणिमा लाला	एन एस— 23100 एक्स	28 मार्च 1989
ले० श्वेता दूबे	एन एस— 23101 ए	12 जुलाई 1991
ले० हिना कुमारी	एन एस— 23102 एच	02 जून 1989
ले० दीपिका बिष्ट	एन एस— 23103 एल	19 अक्टूबर 1989
ले० शेख आस्मा	एन एस— 23104 एन	12 जून 1991
ले० शीनू टी वी जेम्स	एन एस— 23105 डब्ल्यू	15 मई 1991
ले० स्मिता के वी	एन एस— 23106 वाई	24 फरवरी 1986
ले० ऐश्वर्या मोहनन	एन एस— 23107 एफ	12 नवंबर 1990
ले० विभा कुमारी	एन एस— 23108 के	02 जुलाई 1988
ले० निता सी	एन एस— 23109 एम	10 जुलाई 1991
ले० सुष्मिता घोष	एन एस— 23110 एफ	15 फरवरी 1990
ले० अंजु यादव	एन एस— 23111 के	02 सितंबर 1988
ले० गोपिका कृष्णा	एन एस— 23112 एम	11 सितंबर 1991
ले० शामली करोल	एन एस— 23113 पी	06 जुलाई 1990
ले० रश्मि बिष्ट	एन एस— 23114 एक्स	19 अप्रैल 1991
ले० येफरेन्बी येन्द्रमबम	एन एस— 23115 ए	12 जुलाई 1990
ले० सपना लाल	एन एस— 23116 एच	17 सितंबर 1988
ले० कुक्कु सलीम के	एन एस— 23117 एल	02 नवंबर 1988
ले० दृश्या एस	एन एस— 23118 एन	05 मई 1989
ले० श्रद्धा सिंह	एन एस— 23119 डब्ल्यू	21 नवंबर 1985
ले० जे नैन्सी	एन एस— 23120 एल	12 मार्च 1989
ले० अन्जु सिंह	एन एस— 23121 एन	14 अक्टूबर 1989
ले० आरती के एस	एन एस— 23122 डब्ल्यू	24 जनवरी 1991

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय

सं. 154, दिनांक 13.6.14—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

1. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री बी. एन. रामनाथ को 27 दिसम्बर, 2013 से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में ।
2. वै.गु.आ.महानिदेशालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री एन.ए. मेसराम को 31 दिसम्बर, 2013 से टुकड़ी, वैमानिक गुणता आश्वासन स्कंध (आयुध), मुरादनगर में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में ।
3. वैमानिक गुणता आश्वासन स्कंध (आयुध), खमारिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री ए. के. बरुआ को 27 दिसम्बर, 2013 से वैमानिक गुणता आश्वासन स्कंध (आयुध), खमारिया में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में ।
4. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री पी. आर. विश्वनाथ को 27 दिसम्बर, 2013 से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में ।
5. उपमहानिदेशक (नासिक) कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री पी. पी. सिंह को 28 दिसम्बर, 2013 से उपमहानिदेशक (नासिक) कार्यालय में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में ।

6. उपमहानिदेशक (कोरापुट) कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री बी. एम. दिनकर बाबू को 30 दिसम्बर, 2013 से ए.एल.एस.आई.डी.ए., बेंगलुरु में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

7. एस.एस.क्यू.ए.जी., हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री एच. के. मोहन्ती को 27 दिसम्बर, 2013 से एस.एस.क्यू.ए.जी., हैदराबाद में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

8. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री पी. वी. अनंतनारायनन को 01 जनवरी, 2014 से उपमहानिदेशक (कोरापुट) कार्यालय में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

9. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री के. सुब्बा राव को 30 दिसम्बर, 2013 से उपमहानिदेशक (कोरापुट) कार्यालय में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

10. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., कोरवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री राहुल गुप्ता को 27 दिसम्बर, 2013 से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., कोरवा में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

11. ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री महेश सी. कलासद को 27 दिसम्बर, 2013 से ओ.आर.डी.ए.क्यू.ए., बेंगलुरु में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

12. उपमहानिदेशक (नासिक) कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद को 27 दिसम्बर, 2013 से उपमहानिदेशक (नासिक) कार्यालय में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

13. एम.एस.क्यू.ए.ए., हैदराबाद के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री अनीश बाबू पी. को 27 दिसम्बर, 2013 से एम.एस.क्यू.ए.ए., हैदराबाद में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में।

इन्द्रजीत सेठी
अवर सचिव

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

सं. 155, दिनांक 16 जून 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं—

ले० कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कर्नल ज्योति एम	एन आर-17707 एन	20 जनवरी 2014

ले० कर्नल (समयमान) से ले० कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ले० कर्नल प्रसन्ना कुमारी एल	एन आर-18547 एल	27 जनवरी 2014

कैप्टन से मेजर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर कल्पना कंवर	एन आर-21439एम	25 अगस्त 2013
मेजर किरन सिंह	एन आर-21440एफ	25 अगस्त 2013
मेजर अनुराधा गौर	एन आर-21441के	25 अगस्त 2013
मेजर आकांक्षा शर्मा	एन आर-21442एम	25 अगस्त 2013
मेजर अनु शर्मा	एन आर-21443पी	25 अगस्त 2013
मेजर ललिता अलरिया	एन आर-21444एक्स	25 अगस्त 2013
मेजर मौशमी प्रमानिक	एन आर-21445ए	25 अगस्त 2013
मेजर जतिन्दर कौर	एन आर-21446एच	25 अगस्त 2013
मेजर रेमी माइकल	एन आर-21447एल	25 अगस्त 2013
मेजर निसा फिलिप	एन आर-21448एन	25 अगस्त 2013

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर काव्या बालू	एन आर-21449 डब्ल्यू	25 अगस्त 2013
मेजर सुमिता जी	एन आर-21450एल	25 अगस्त 2013
मेजर शालिनी	एन आर-21452एन	25 अगस्त 2013
मेजर गीता कुमारी चहर	एन आर-21453वाई	25 अगस्त 2013
मेजर जीनू जाँ	एन आर-21454एफ	25 अगस्त 2013
मेजर पूजा दुकारे	एन आर-21455 के	25 अगस्त 2013
मेजर समिन्दर कौर	एन आर-21456एम	25 अगस्त 2013
मेजर आशू राना	एन आर-21457पी	25 अगस्त 2013
मेजर अनिता सेमवाल	एन आर-21458एक्स	25 अगस्त 2013
मेजर सीजा कुरुप	एन आर-21459ए	25 अगस्त 2013
मेजर रजनी भट्ट	एन आर-21460पी	25 अगस्त 2013
मेजर एस शीतल मुदलियार	एन आर-21461एक्स	25 अगस्त 2013
मेजर मनीषा	एन आर-21462ए	25 अगस्त 2013
मेजर लीना तमंग	एन आर-21463एच	25 अगस्त 2013
मेजर नीतू कुमारी	एन आर-21464एल	25 अगस्त 2013
मेजर शिखा के नायर	एन आर-21465एन	25 अगस्त 2013
मेजर एम एच नियांग जसवाल	एन आर-21466 डब्ल्यू	25 अगस्त 2013
मेजर अरुणधती	एन आर-21467 वाई	25 अगस्त 2013
मेजर मैरी जॉनसन के	एन आर-21468एफ	25 अगस्त 2013
मेजर प्रगति निगम	एन आर-21470 वाई	25 अगस्त 2013
मेजर दिव्या पी	एन आर-21471एफ	25 अगस्त 2013
मेजर राधिका पी वी	एन आर-21472 के	25 अगस्त 2013
मेजर पूजा राय	एन आर-21473एम	25 अगस्त 2013
मेजर पदमा रागिनी	एन आर-21474पी	25 अगस्त 2013
मेजर सतविन्दरजीत कौर	एन आर-21475एक्स	25 अगस्त 2013
मेजर रीना कुमारी	एन आर-21476ए	25 अगस्त 2013
मेजर शिखा गुप्ता	एन आर-21478एल	25 अगस्त 2013
मेजर सोनिया त्रिपाठी	एन आर-21479एन	25 अगस्त 2013
मेजर वन्दना कुमारी	एन आर-21480एच	25 अगस्त 2013
मेजर रीतु राय	एन आर-21482एन	25 अगस्त 2013
मेजर सीमा कापसे	एन आर-21483 डब्ल्यू	25 अगस्त 2013
मेजर जिशा बी	एन आर-21484 वाई	25 अगस्त 2013
मेजर श्वेता शर्मा	एन आर-21485एफ	25 अगस्त 2013
मेजर सूसी आनन्द	एन आर-21486 के	25 अगस्त 2013
मेजर कात्यानी	एन आर-21487एम	25 अगस्त 2013

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर राखी	एन आर-21488पी	25 अगस्त 2013
मेजर रीतु डागर	एन आर-21489एक्स	25 अगस्त 2013
मेजर सोनिया परवीन	एन आर-21490एम	25 अगस्त 2013
मेजर इन्दुलेखा के ए	एन आर-21492एक्स	25 अगस्त 2013
मेजर अर्पणा पिकी	एन आर-21495एल	25 अगस्त 2013
मेजर भारती देवी	एन आर-21498 वाई	25 अगस्त 2013
मेजर ज्योत्सना सिंह	एन आर-21506एम	25 अगस्त 2013
मेजर नीलिमा दे	एन आर-21512ए	25 अगस्त 2013
मेजर शिप्रा सिंह	एन आर-21513एच	25 अगस्त 2013
मेजर अमिता मिश्रा	एन आर-21514एल	25 अगस्त 2013
मेजर मनिन्दर कौर	एन आर-21516 डब्ल्यू	25 अगस्त 2013
मेजर नवजीत कौर	एन आर-21520 वाई	25 अगस्त 2013
मेजर ग्रेटी जॉर्ज	एन आर-21521एफ	25 अगस्त 2013
मेजर सिवा प्रिया	एन आर-21529 एन	21 अगस्त 2013
मेजर भावना भारद्वाज	एन आर-21530 एच	21 अगस्त 2013
मेजर मीनाक्षी बाजवा	एन आर-21531 एल	21 अगस्त 2013
मेजर श्रवनी राय	एन आर-21532 एन	21 अगस्त 2013
मेजर नीरज चौधरी	एन आर-21533 डब्ल्यू	21 अगस्त 2013
मेजर संदीप कुमारी	एन आर-21534 वाई	21 अगस्त 2013
मेजर विद्या पी	एन आर-21535 एफ	21 अगस्त 2013
मेजर विनीता सिंह	एन आर-21536 के	21 अगस्त 2013
मेजर कविता गुरुंग	एन आर-21537 एम	21 अगस्त 2013
मेजर पोम्पा मुखर्जी	एन आर-21538पी	21 अगस्त 2013
मेजर समिन्दर मलिक	एन आर-21540 एम	21 अगस्त 2013
मेजर अरुणा अरविन्दन	एन आर-21541 पी	21 अगस्त 2013
मेजर बिजया साहा	एन आर-21542 एक्स	21 अगस्त 2013
मेजर वैजन्ती मतवाल	एन आर-21543 ए	21 अगस्त 2013
मेजर निशी	एन आर-21545 एल	21 अगस्त 2013
मेजर आरजू वोहरा	एन आर-21546 एन	21 अगस्त 2013
मेजर तनु जदली	एन आर-21547 डब्ल्यू	21 अगस्त 2013
मेजर डेपल डी वान्खर	एन आर-21548 वाई	21 अगस्त 2013
मेजर जागृति सुखपाल	एन आर-21549 एफ	21 अगस्त 2013
मेजर रिचा राय	एन आर-21550 डब्ल्यू	21 अगस्त 2013
मेजर टीना दाश	एन आर-21551 वाई	21 अगस्त 2013
मेजर माया नायर	एन आर-21552 एफ	21 अगस्त 2013
मेजर पूनम कश्यप	एन आर-21553 के	21 अगस्त 2013
मेजर कविता दास	एन आर-21554 एम	21 अगस्त 2013

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर एम प्रिया	एन आर-21555 पी	21 अगस्त 2013
मेजर अनिता नायर अशोकन	एन आर-21556 एक्स	21 अगस्त 2013
मेजर आरशी सुलताना	एन आर-21634 के	21 अगस्त 2013
मेजर रेनुका दलाल	एन आर-21635 एम	21 अगस्त 2013

सुनीता कपूर
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

एयर शाखा

सं. 156, दिनांक 17 जून 2014—भारत के राष्ट्रपति ने प्रसन्न होकर निम्नलिखित पदोन्नतियाँ की हैं:—

(जूवाअ से मूल वाअ)

क्रम सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
1.	635603	वाअ	रमेश चन्द्र साहू	क्लर्क जीडी	05 मई 13
2.	647472	वाअ	बिश्वनाथ प्रसाद	क्लर्क जीडी	05 मई 13
3.	648101	वाअ	बिनय कुमार ठाकुर	क्लर्क जीडी	05 मई 13
4.	649052	वाअ	सुरेन्द्र नाथ साहू	क्लर्क जीडी	05 मई 13
5.	649096	वाअ	अजय कुमार	क्लर्क जीडी	05 मई 13
6.	649244	वाअ	शक्तिवेलु पित्तवृष्ण	क्लर्क जीडी	09 मई 13
7.	649293	वाअ	श्रीपाल पाल	क्लर्क जीडी	05 मई 13
8.	649297	वाअ	उमेश चन्द्र मिश्रा	क्लर्क जीडी	05 मई 13
9.	649301	वाअ	अर्जुन सिंह	क्लर्क जीडी	05 मई 13
10.	649405	वाअ	नरेन्द्र सिंह चौहान	क्लर्क जीडी	07 मई 13
11.	649459	वाअ	सुदेवन बी एस	क्लर्क जीडी	09 मई 13
12.	649516	वाअ	हर सिंह स्योउत्रि	क्लर्क जीडी	09 मई 13
13.	649549	वाअ	बशिष्ठ नारायण सिंह	क्लर्क जीडी	09 मई 13
14.	649552	वाअ	राम कुमार सिंह	क्लर्क जीडी	07 मई 13
15.	670022	वाअ	रमेश चन्द्र मिश्रा	क्लर्क जीडी	09 मई 13
16.	672690	वाअ	मिण्डर पाल	क्लर्क जीडी	03 मई 13
17.	692794	वाअ	एस श्रीनिवास कुमार	क्लर्क जीडी	03 मई 13
18.	693547	वाअ	दिलीप कुमार	क्लर्क जीडी	03 मई 13
19.	694972	वाअ	निर्मल कुमार दास	क्लर्क जीडी	03 मई 13
20.	700403	वाअ	संजय पाटनकर	क्लर्क जीडी	03 मई 13
21.	621205	वाअ	हरनेक सिंह तूर	भावासे (पु)	07 जून 13
22.	625074	वाअ	विजय सिंह यादव	भावासे (पु)	13 जून 13
23.	625141	वाअ	हरीश चन्द्र पांडे	भावासे (पु)	03 जून 13
24.	625192	वाअ	अमिय कुमार पैन	भावासे (पु)	03 जून 13
25.	625440	वाअ	हरी सिंह राजपूत	भावासे (पु)	09 जून 13
26.	625519	वाअ	चोकालिंगम वेन्नी वेन्दन	भावासे (पु)	03 जून 13
27.	626073	वाअ	अमर जीत सिंह डागर	भावासे (पु)	11 जून 13

क्रम सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
28.	626172	वाअ	कमलेश्वर पीडी तिवारी	भावासे (पु)	13 जून 13
29.	626515	वाअ	कृष्णा वीर राठी	भावासे (पु)	13 जून 13
30.	626704	वाअ	जगबीर सिंह	भावासे (पु)	13 जून 13
31.	626968	वाअ	चरन जीत सिंह	भावासे (पु)	09 जून 13
32.	627030	वाअ	अनिल कुमार सिंह	भावासे (पु)	15 जून 13
33.	627524	वाअ	लखमी चन्द	भावासे (पु)	09 जून 13
34.	627525	वाअ	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	भावासे (पु)	09 जून 13
35.	627756	वाअ	दिनेश चन्द्र बघली	भावासे (पु)	11 जून 13
36.	628049	वाअ	कृष्णासैमी पशुपथी	भावासे (पु)	11 जून 13
37.	628100	वाअ	अनिल कुमार	भावासे (पु)	09 जून 13
38.	628201	वाअ	पवन कुमार	भावासे (पु)	11 जून 13
39.	628267	वाअ	बिभुदत्ता पटनायक	भावासे (पु)	09 जून 13
40.	629044	वाअ	महताब सिंह	भावासे (पु)	11 जून 13
41.	629601	वाअ	संजीव ढाल	भावासे (पु)	15 जून 13
42.	629668	वाअ	ओमकरन सिंह	भावासे (पु)	11 जून 13
43.	705132	वाअ	दिलीप कुमार झा	भावासे (पु)	11 जून 13
44.	619910	वाअ	दिनेश सिंह	एमटीडी	19 मई 13
45.	620954	वाअ	विनोद कुमार	एमटीडी	19 मई 13
46.	621144	वाअ	गडे बालासाहेब सम्पत	एमटीडी	19 मई 13
47.	621617	वाअ	कृष्ण सिंह	एमटीडी	19 मई 13
48.	621811	वाअ	कमल कान्ति बोस	एमटीडी	19 मई 13
49.	621930	वाअ	सुरेन्द्र कुमार	एमटीडी	25 मई 13
50.	621945	वाअ	रबिश चन्द्र झा	एमटीडी	19 मई 13
51.	622021	वाअ	दीनबन्धु कर	एमटीडी	19 मई 13
52.	622171	वाअ	सच्चिन्द्र प्रसाद पाति	एमटीडी	21 मई 13
53.	622509	वाअ	वाई विजयकुमार	एमटीडी	21 मई 13
54.	622690	वाअ	कुमार सुरेन्द्र	एमटीडी	21 मई 13
55.	622928	वाअ	बिरेन्द्र सिंह	एमटीडी	21 मई 13
56.	623108	वाअ	सुब्रत परियाल	एमटीडी	17 मई 13
57.	623704	वाअ	कैलाश नाथ शर्मा	एमटीडी	21 मई 13
58.	623718	वाअ	शम्भू नाथ मुखर्जी	एमटीडी	21 मई 13
59.	623851	वाअ	बिजय कुमार साहू	एमटीडी	21 मई 13
60.	624096	वाअ	राम निवास सिंह	एमटीडी	23 मई 13
61.	624126	वाअ	अरविन्द राम	एमटीडी	03 मई 13
62.	624302	वाअ	श्री भूपेन्द्र कुमार उपाध्याय	एमटीडी	23 मई 13
63.	624348	वाअ	झादेश्वर साहू	एमटीडी	23 मई 13
64.	624363	वाअ	चण्डी राम राठी	एमटीडी	29 मई 13
65.	624369	वाअ	अर्जुन महतो	एमटीडी	29 मई 13
66.	624828	वाअ	राम कुमार सिंह खेदर	एमटीडी	25 मई 13
67.	624838	वाअ	अरुण कुमार शर्मा	एमटीडी	03 मई 13

क्रम सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
68.	624896	वाअ	बाबू सिंह तोमर	एमटीडी	03 मई 13
69.	624898	वाअ	सूर्य नारायण पांडे	एमटीडी	27 मई 13
70.	625179	वाअ	चन्द्र शेखरन अज्जन	एमटीडी	03 मई 13
71.	625183	वाअ	सन्नासी गोविन्द सैमी	एमटीडी	27 मई 13
72.	625432	वाअ	गजेन्द्र सिंह तोमर	एमटीडी	27 मई 13
73.	625593	वाअ	सुरेन्द्र कुमार	एमटीडी	27 मई 13
74.	625847	वाअ	बेचू सिंह	एमटीडी	03 मई 13
75.	625851	वाअ	बृजनाथ गुप्ता	एमटीडी	03 मई 13
76.	625954	वाअ	रामचन्द्र सिंह मातवा	एमटीडी	03 मई 13
77.	626158	वाअ	दया राम सिंह	एमटीडी	07 मई 13
78.	626205	वाअ	बिजय कुमार राउत्रे	एमटीडी	05 मई 13
79.	626424	वाअ	नरेश कुमार	एमटीडी	05 मई 13
80.	626427	वाअ	अमृत लाल धारीवाल	एमटीडी	05 मई 13
81.	626666	वाअ	रविन्द्र कुमार	एमटीडी	05 मई 13
82.	626883	वाअ	चन्द्र शेखर शर्मा	एमटीडी	05 मई 13
83.	626890	वाअ	अवधेश कुमार पाठक	एमटीडी	05 मई 13
84.	626962	वाअ	जसवीर सिंह	एमटीडी	03 मई 13
85.	627017	वाअ	मुन मुन मिश्रा	एमटीडी	07 मई 13
86.	627129	वाअ	सत्यवीर रिठालिया	एमटीडी	05 मई 13
87.	627188	वाअ	कृष्णा कुमार चौधरी	एमटीडी	07 मई 13
88.	627228	वाअ	अग्या राम जाट	एमटीडी	09 मई 13
89.	627229	वाअ	पूरन चन्द	एमटीडी	05 मई 13
90.	627244	वाअ	साधू राम	एमटीडी	07 मई 13
91.	627489	वाअ	हरबीर सिंह तेवतिया	एमटीडी	09 मई 13
92.	627777	वाअ	सतीश चन्द त्यागी	एमटीडी	09 मई 13
93.	627809	वाअ	सुरेश पोन्नाथ	एमटीडी	05 मई 13
94.	627950	वाअ	नारायन सिंह	एमटीडी	15 मई 13
95.	627962	वाअ	ओम प्रकाश खरोलिया	एमटीडी	09 मई 13
96.	627980	वाअ	नायर के एस	एमटीडी	07 मई 13
97.	627996	वाअ	सगनि बालाकसैयाह	एमटीडी	03 मई 13
98.	628080	वाअ	शेखावत राजेन्द्र सिंह	एमटीडी	09 मई 13
99.	628122	वाअ	सहदेव कुमार बधवार	एमटीडी	09 मई 13
100.	628342	वाअ	घन्ची देवराम	एमटीडी	15 मई 13
101.	628400	वाअ	सीताराम घोराय	एमटीडी	15 मई 13
102.	628431	वाअ	राम बरत यादव	एमटीडी	15 मई 13
103.	628693	वाअ	राज कुमार सैनी	एमटीडी	15 मई 13
104.	628708	वाअ	प्रमोद कुमार लोहिया	एमटीडी	15 मई 13
105.	629484	वाअ	साहेब सिंह	एमटीडी	17 मई 13
106.	629494	वाअ	दीपक कुमार शर्मा	एमटीडी	17 मई 13
107.	629495	वाअ	दर्शन सिंह कलसी	एमटीडी	15 मई 13

क्रम सं.	सेवा संख्या	रैंक	नाम	ट्रेड	मूल रैंक दिनांक
108.	629743	वाअ	तपस चक्रबोर्ली	एमटीडी	17 मई 13
109.	705216	वाअ	रामाकान्त पांडे	एमटीडी	17 मई 13
110.	705244	वाअ	श्याम लाल शाडले	एमटीडी	17 मई 13
111.	705539	वाअ	हरशॉ रूप सिंह नागर	एमटीडी	17 मई 13
112.	706414	वाअ	सुरेश कुमार	एमटीडी	17 मई 13
113.	706755	वाअ	नरेन्द्र सिंह हुड्डा	एमटीडी	15 मई 13
114.	644030	वाअ	बिन्देश्वर प्रसाद सिंह	एसईडब्ल्यू	11 मई 13
115.	657459	वाअ	कैलाश बाबू कटियार	एसईडब्ल्यू	11 मई 13
116.	678826	वाअ	अरुण प्रकाश श्रीवास्तवा	एसईडब्ल्यू	07 मई 13
117.	695202	वाअ	प्रमोद कुमार	एसईडब्ल्यू	07 मई 13
118.	696930	वाअ	श्री विलास राय	एसईडब्ल्यू	09 मई 13
119.	634247	वाअ	रनबीर सिंह दहिया	टेलेस्ट आरटीओ	05 मार्च 13
120.	634491	वाअ	राजिन्द्र सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	07 मार्च 13
121.	634494	वाअ	रवि करन सिंह राघव	टेलेस्ट आरटीओ	21 मार्च 13
122.	635299	वाअ	राज नारायण चतुर्वेदी	टेलेस्ट आरटीओ	07 मार्च 13
123.	636964	वाअ	राकेश कुमार	टेलेस्ट आरटीओ	09 मार्च 13
124.	637161	वाअ	अवधेश कुमार	टेलेस्ट आरटीओ	11 मार्च 13
125.	637168	वाअ	सुरेश प्रसाद	टेलेस्ट आरटीओ	11 मार्च 13
126.	637222	वाअ	दिलीप कुमार कुशवाहा	टेलेस्ट आरटीओ	09 मार्च 13
127.	637426	वाअ	सूर्य नारायण	टेलेस्ट आरटीओ	23 मार्च 13
128.	638226	वाअ	लजर चेल्लक्कोन	टेलेस्ट आरटीओ	23 मार्च 13
129.	639258	वाअ	प्रद्युमन कुमार परीजा	टेलेस्ट आरटीओ	13 मार्च 13
130.	639369	वाअ	अनोवरुल हक शेख	टेलेस्ट आरटीओ	09 मार्च 13
131.	639379	वाअ	दिलीप सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	09 मार्च 13
132.	639380	वाअ	सहबस अली	टेलेस्ट आरटीओ	09 मार्च 13
133.	639384	वाअ	मोहन सिंह	टेलेस्ट आरटीओ	09 मार्च 13
134.	639903	वाअ	नारायण सैमी राजा पलानी राजा	टेलेस्ट आरटीओ	25 फरवरी 13
135.	640013	वाअ	संजय कुमार गोयल	टेलेस्ट आरटीओ	15 मार्च 13
136.	640065	वाअ	बिरेन्द्र सिंह तक्षक	टेलेस्ट आरटीओ	15 मार्च 13
137.	640135	वाअ	नूर मोहम्मद	टेलेस्ट आरटीओ	27 फरवरी 13
138.	640299	वाअ	रमन कुमार चौधरी	टेलेस्ट आरटीओ	17 मार्च 13
139.	640573	वाअ	अब्दुल हाकिम कत्तुमुन्द	टेलेस्ट आरटीओ	03 मार्च 13
140.	640606	वाअ	अन्जन दत्ता	टेलेस्ट आरटीओ	17 मार्च 13
141.	640737	वाअ	मूल चन्द शर्मा	टेलेस्ट आरटीओ	27 फरवरी 13
142.	715192	वाअ	राम जीत	टेलेस्ट आरटीओ	01 मार्च 13
143.	716032	वाअ	लखविन्दर सिंह घोत्रा	टेलेस्ट आरटीओ	19 मार्च 13

(वायु शाखा)

क्र. 157, दिनांक 18 जून 2014—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसर को उसके सामने दी गयी तिथि से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उनकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ हो। अफसर को वायुसेना सूची में स्क्वाड्रन लीडर जी चतुर्वेदी (27986) प्रशासनिक व फ्लाइट लेफ्टिनेंट वी द्विवेदी (28001) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर को 28 नवम्बर 2011 से स्थायी निम्न उड़ान अयोग्य चिकित्सा श्रेणी में पाये जाने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा. से. मु./21901/28032/ पीओ-3(ई) दिनांक 05 मार्च 2013।

फ्लाइट लेफ्टिनेंट जसमीत सिंह (28032) उड़ान (पायलट) से
प्रशासनिक शाखा में दिनांक 28 नवम्बर 2011

एस के सिंह
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3(ई)

MINISTRY OF DEFENCE
New Delhi, the 19th July 2014
D(MS) SECTION

No. 152, dated 11th June 2014—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 17 April, 2014:—

Principal Honorary (Naval) ADC

Admiral RK Dhowan, PVSM, AVSM, YSM (01563A)

REVATI RAMAN
Under Secy

No. 153, dated 12th June 2014—The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 01 MAR 2013:—

REGULAR ARMY
MILITARY NURSING SERVICES
(PERMANENT COMMISSION)

To be Lt on Probation

RANK & NAME		SER NO.	Date of Birth
LT	POONAM KARJEE	NR 23007W	09/04/1990
LT	ENGLESH KUMARI	NR 23008Y	05/03/1988
LT	KRIPA S VISWANATH	NR 23009F	29/10/1991
LT	KARUNA VK	NR 23010W	10/12/1991
LT	KUSUM	NR 23011Y	22/08/1990
LT	RESHMA VIJAY	NR 23012F	08/05/1991
LT	SANYA KS	NR 23013K	13/10/1990
LT	DIANA PRIYA TAMANG	NR 23014M	16/01/1991
LT	MANJU CHOUDHARY	NR 23015P	08/12/1991
LT	SAPNA KUMARI	NR 23016X	07/08/1991
LT	SARANYA S NAIR	NR 23017A	25/04/1990
LT	POOJA SHAKYA	NR 23018H	01/08/1991
LT	ANITHA RANI SAHU	NR 23019L	19/12/1991
LT	SOUMYA VS	NR 23020A	31/05/1987
LT	ASWATHY G MENON	NR 23021H	26/1/1990

RANK & NAME		SER NO.		Date of Birth
LT	SADHNA CHOUDHARY	NR	23022L	22/04/1989
LT	SUPRIYA E	NR	23023N	07/12/1990
LT	RESHMA R KUMAR	NR	23024W	21/03/1989
LT	AMINA S NAZ	NR	23025Y	04/05/1991
LT	NISHA KUMARI	NR	23026F	13/04/1987
LT	DEVISREE KG	NR	23027K	16/04/1990
LT	MUMTAZ RAHIM VK	NR	23028M	14/11/1990
LT	SNEH SHARMA	NR	23029P	13/12/1990
LT	JAIMOL JOSE	NR	23030K	15/05/1991
LT	PREETI SINGH CHAUHAN	NR	23031M	14/04/1991
LT	SHREYA SUBBA	NR	23032P	03/12/1991
LT	YOGESH KUMARI	NR	23033X	02/02/1990
LT	MAHIMA ANNA ACHANKUNJU	NR	23034A	29/06/1991
LT	UMA DEVI	NR	23035H	08/04/1990
LT	GUNJAN UPADHYAY	NR	23036L	27/07/1988
LT	VAISHALI MALHOTRA	NR	23037N	21/02/1991
LT	RITU SUSAN MATHEW	NR	23038W	29/11/1991
LT	AMRITA KUSHWAHA	NR	23039Y	17/12/1990
LT	JJI VIJAYAN	NR	23040N	11/05/1989
LT	CHANCHAL	NR	23041W	27/12/1990
LT	SANYA SINGH	NR	23042Y	16/09/1991
LT	KAMIA	NR	23043F	17/06/1988
LT	SEEMA SINGH	NR	23044K	11/12/1988
LT	SANGEETA ROY	NR	23045M	18/02/1991
LT	NEELAM TIWARI	NR	23046P	16/09/1987
LT	MANDEEP KAUR	NR	23047X	20/05/1989

RANK & NAME		SER NO.		Date of Birth
LT	PUSHPA NODIYAL	NR	23048A	17/12/1989
LT	SANDEEP KAUR	NR	23049H	14/06/1991
LT	MANJU S	NR	23050X	23/05/1990
LT	REENA	NR	23051A	24/11/1989
LT	DEBOLINA SINGH	NR	23052H	21/08/1991
LT	SMITA RANI DASH	NR	23053L	12/03/1987
LT	SHIVA SOLANKI	NR	23054N	12/11/1988
LT	DEEPTI YADAV	NR	23055W	25/01/1989
LT	VANDANA	NR	23056Y	02/03/1988
LT	ELIZEBETH DALIA CT	NR	23057F	09/03/1990
LT	ARUNDEEP KAUR	NR	23058K	07/07/1989
LT	SREE REKHA R NAIR	NR	23059M	19/01/1991
LT	CHRISTINA MERIN JOHN	NR	23060F	20/09/1991
LT	MONIA MAMODIA	NR	23061K	02/10/1987
LT	SHILPA S PILLAI	NR	23062M	19/12/1989
LT	RACHITA KUMARI	NR	23063P	19/05/1990
LT	SHARMA SHANMUGHAN	NR	23064X	15/11/1990
LT	RITA RANI	NR	23065A	02/02/1987
LT	SWATI	NR	23066H	10/2/1991
LT	BASUNDHARA GURUNG	NR	23067L	04/07/1990
LT	MANILA SUBBA	NR	23068N	03/01/1991
LT	DIVYA SUNNY MARTINA	NR	23069W	14/08/1988
LT	RENU SHARMA	NR	23070L	31/07/1990
LT	SHEELA KUMARI	NR	23071N	26/10/1987
LT	CHEDEN BHUTIA	NR	23072W	18/5/1990
LT	ANISHA MARIAM VARGHESE	NR	23073Y	28/03/1990

RANK & NAME		SER NO.		Date of Birth
LT	NEELAM KUMARI	NR	23074F	20/10/1985
LT	RESHMI R	NR	23075K	20/08/1991

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officers in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 26 AUG 2013 (Seniority from 26 AUG 2012 for promotion and seniority being BSc (Nursing):—

To be Lt on Probation

RANK & NAME		PERS NO		DATE OF BIRTH
LT	USHA TIWARI	NR	23247N	28/03/1991
LT	SONI RANI	NR	23248W	22/12/1988
LT	ALKA SACHAN	NR	23249Y	27/09/1989
LT	KHUSHBU SHARMA	NR	23250N	24/07/1991
LT	HONEY HARIDAS	NR	23251W	09/10/1991
LT	NEETHU A	NR	23252Y	08/12/1991
LT	ALMY VARGHESE	NR	23253F	05/03/1991
LT	PERANGJAILUNG	NR	23254K	16/02/1990
LT	SNEHA LALLER	NR	23255M	11/01/1989
LT	MONICA MARY GEORGE MARIAMMA	NR	23256P	20/05/1991
LT	VISMI V NAIR	NR	23257X	25/05/1991
LT	SUJANI CHETTRI	NR	23258A	17/12/1991
LT	PREETI RATHI	NR	23259H	01/07/1991
LT	KOMAL DHOUNDIYAL	NR	23260X	10/09/1991
LT	AKANKSHA SEMWAL	NR	23261A	26/10/1991
LT	RITA RANI	NR	23262H	07/03/1989
LT	NEHA KUMARI VERMA	NR	23263L	15/12/1990
LT	RESHMY GOPI	NR	23264N	08/07/1989
LT	REEMA SAXENA	NR	23265W	03/09/1988
LT	NEHA SINGH	NR	23266Y	09/02/1991

RANK & NAME		PERS NO		DATE OF BIRTH
LT	KOSHADHRI DEWAN	NR	23267F	08/12/1988
LT	NAYAN DIXIT	NR	23268K	15/05/1989
LT	POOJA SAJAN	NR	23269M	24/07/1990
LT	JENNY JOSEPH	NR	23270F	12/07/1990
LT	JHUMA DUTTA	NR	23271K	11/08/1986
LT	ATAMJIT KAUR	NR	23272M	29/10/1987
LT	SREE LAKSHMI L	NR	23273P	13/04/1990
LT	POONAM	NR	23274X	26/07/1991
LT	MEENAKSHI	NR	23275A	26/07/1987
LT	HIMANI SINGH	NR	23276H	19/07/1990
LT	MANJU TOMAR	NR	23277L	18/11/1990
LT	SUDHA SINGH	NR	23278N	11/03/1989
LT	INDU ROBERT K	NR	23279W	02/10/1991
LT	AVANI CHANDRAN R	NR	23280L	09/10/1990
LT	SHALEENA SUBBA	NR	23281N	23/02/1989
LT	SHANTI KUMARI	NR	23282W	02/07/1991

The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 24 FEB 2013 (Seniority from 24 FEB 2012 for promotion and seniority being BSc (Nursing) :—

To be Lt on Probation

RANK	NAME		PERS NO	DOB
LT	MALTI KUMARI	NR	23006 N	15/01/1986

SHORT SERVICE COMMISSION

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med)

dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 15 May 2013 (Seniority from 15 May 2011 for promotion and pay fixation being MSc (Nursing)) :—

To be Lt on Probation

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF BIRTH
LT S AMSA	NS-23125 K	07/03/80
LT RAJANI R NAIR	NS-23136 W	01/03/85
LT JOTHIMANI K	NS-23139 K	05/05/81
LT SPANDANA DEVI VANGAPANDU	NS-23143 M	01/06/84
LT P RAFIUNNISA	NS-23165 L	10/01/83
LT NARMATHA S	NS-23166 N	20/05/85
LT ANU RANI A AUGUSTINE	NS-23179 L	22/03/86
LT TANI S RANJAN	NS-23227 A	06/05/87
LT DIVYA ANAND	NS-23232 L	16/08/86

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 01 Mar 2013.

To be Lt on Probation

RANK & NAME		PERS NO	DOB
LT	BABITA	NS 23077P	30/06/1989
LT	RICHA KUMARI MISHRA	NS 23078X	20/10/1989
LT	ANILA L	NS 23079A	15/03/1990
LT	MINGMA LHAMU SHERPA	NS 23080P	10/06/1991
LT	NISHA NAGARKOTI	NS 23081X	31/05/1988
LT	RASHIDA BEGAM	NS 23082A	17/07/1987
LT	SNEHLATA	NS 23083H	22/12/1987
LT	PARVATHY P	NS 23084L	27/07/1991
LT	AYEKPAM ANGELLA DEVI	NS 23085N	05/08/1991
LT	RENU	NS 23086W	15/03/1991
LT	SOURAVI ROY	NS 23087Y	12/05/1991
LT	SANDHYA KUMARI	NS 23088F	06/09/1987
LT	SONI	NS 23089K	04/07/1988

RANK & NAME		PERS NO		DOB
LT	PADMA J	NS	23090Y	24/08/1990
LT	SANYOGITA KUMARI	NS	23091F	19/11/1984
LT	NISSY P SUNNY	NS	23092K	26/05/1991
LT	A L LUCKSHMY	NS	23093M	06/06/1991
LT	SHALLY	NS	23094P	26/10/1989
LT	SMRITI SETHI	NS	23095X	14/09/1990
LT	SUJATA SINGH	NS	23096A	03/04/1989
LT	ARPITA SARKAR	NS	23097H	20/07/1990
LT	SALONI PAL	NS	23098L	30/09/1987
LT	SRUTHI S KUMAR	NS	23099N	28/03/1989
LT	ARUNIMA LALA	NS	23100X	28/03/1989
LT	SWETA DUBEY	NS	23101A	12/07/1991
LT	HEENA KUMARI	NS	23102H	02/06/1989
LT	DEEPIKA BISHT	NS	23103L	19/10/1989
LT	SHEIK AASMA	NS	23104N	12/06/1991
LT	SHINU T JAMES	NS	23105W	15/05/1991
LT	SMITHA K V	NS	23106Y	24/02/1986
LT	AISHWARIA MOHANAN	NS	23107F	12/11/1990
LT	VIBHA KUMARI	NS	23108K	02/07/1988
LT	NITHA C	NS	23109M	10/07/1991
LT	SUSHMITA GHOSH	NS	23110F	15/02/1990
LT	ANJU YADAV	NS	23111K	02/09/1988
LT	GOPIKA KRISHNA	NS	23112M	11/09/1991
LT	SHAMLY KAROL	NS	23113P	06/07/1990
LT	RASHMI BISHT	NS	23114X	19/04/1991
LT	YAIPHARENBI YENDREMBAM	NS	23115A	12/07/1990

RANK & NAME		PERS NO		DOB
LT	SAPNA LAL	NS	23116H	17/09/1988
LT	KUKKU SALIM K	NS	23117L	02/11/1988
LT	DRISHYA S	NS	23118N	05/05/1989
LT	SHRADHA SINGH	NS	23119W	21/11/1985
LT	J NANCY	NS	23120L	12/03/1989
LT	ANJU SINGH	NS	23121N	14/10/1989
LT	ARATHI K S	NS	23122W	24/01/1991

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

DIRECTORATE GENERAL OF AERONAUTICAL QUALITY ASSURANCE

No. 154, dated 13th June 2014—The President of India is pleased to make the following promotions :—

1. Shri BN Ramnath, SSO-I of ORDAQA, Bengaluru as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bengaluru w.e.f.27th December, 2013.
2. Shri NA Meshram, SSO-I of HQrs DGAQA, New Delhi as Principal Scientific Officer in Detachment AQAW(A), Muradnagar w.e.f.31st December, 2013.
3. Shri AK Barua, SSO-I of AQAW(A), Khamaria as Principal Scientific Officer in AQAW(A), Khamaria w.e.f. 27th December, 2013.
4. Shri PR Viswanath, SSO-I of ORDAQA, Bengaluru as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 27th December, 2013.
5. Shri PP Singh, SSO-I of ODDG(Nasik) as Principal Scientific Officer in ODDG(Nasik) w.e.f. 28th December, 2013.
6. Shri BM Dinkar Babu, SSO-I of ODDG(Koraput) as Principal Scientific Officer in ALISDA, Bengaluru w.e.f. 30th December 2013.
7. Shri HK Mohanty, SSO-I of SSQAG, Hyderabad as Principal Scientific Officer in SSQAG, Hyderabad w.e.f. 27th December 2013.
8. Shri PV Ananthanarayanan, SSO-I of ORDAQA, Bengaluru as Principal Scientific Officer in ODDG(Koraput) w.e.f. 01st January, 2014.
9. Shri K Subba Rao, SSO-I of ORDAQA, Bengaluru as Principal Scientific Officer in ODDG(Koraput) w.e.f. 30th December 2013.
10. Shri Rahul Gupta, SSO-I of ORDAQA, Korwa as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Korwa w.e.f. 27th December 2013.
11. Shri Mahesh C Kalasad, SSO-I of ORDAQA, Bengaluru as Principal Scientific Officer in ORDAQA, Bengaluru w.e.f. 27th December 2013.
12. Shri Mahendra Prasad, SSO-I of ODDG(Nasik) as Principal Scientific Officer in ODDG(Nasik) w.e.f. 27th December 2013.
13. Shri Aneesh Babu P, SSO-I of MSQAA, Hyderabad as Principal Scientific Officer in MSQAA, Hyderabad w.e.f. 27th December 2013.

INDERJEET SETHI
Under Secy

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

No. 155, dated 16th June 2014—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:—

LT COL (SELECT) TO COL

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
COL JYOTHY M	NR-17707 N	20 JAN 2014

LT COL (TS) TO LT COL (SELECT)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
-------------	-------------	-------------------

LT COL PRASANNA KUMARI L	NR-18547 L	27/01/2014
--------------------------	------------	------------

CAPT TO MAJ

RANK & NAME		PERS NO		DATE OF PROMOTION
MAJ	KALPANA KANWAR	NR	21439M	25/08/2013
MAJ	KIRAN SINGH	NR	21440F	25/08/2013
MAJ	ANURADHA GAUR	NR	21441K	25/08/2013
MAJ	AKANKSHA SHARMA	NR	21442M	25/08/2013
MAJ	ANU SHARMA	NR	21443P	25/08/2013
MAJ	LALITA ALRIYA	NR	21444X	25/08/2013
MAJ	MOUSUMI PRAMANICK	NR	21445A	25/08/2013
MAJ	JATINDER KAUR	NR	21446H	25/08/2013
MAJ	REMI MICHAEL	NR	21447L	25/08/2013
MAJ	NISA PHILIP	NR	21448N	25/08/2013
MAJ	KAVYA BALU	NR	21449W	25/08/2013
MAJ	SUMITHA G	NR	21450L	25/08/2013
MAJ	SHALINI	NR	21452N	25/08/2013
MAJ	GEETA KUMARI CHAHAR	NR	21453Y	25/08/2013
MAJ	JINU JOHN	NR	21454F	25/08/2013
MAJ	POOJA DUKARE	NR	21455K	25/08/2013

RANK & NAME		PERS NO		DATE OF PROMOTION
MAJ	SAMINDER KAUR	NR	21456M	25/08/2013
MAJ	ASHU RANA	NR	21457P	25/08/2013
MAJ	ANITA SEMWAL	NR	21458X	25/08/2013
MAJ	SEEJA KURUP	NR	21459A	25/08/2013
MAJ	RAJANI BHATT	NR	21460P	25/08/2013
MAJ	S SHEETAL MUDALIAR	NR	21461X	25/08/2013
MAJ	MANISHA	NR	21462A	25/08/2013
MAJ	LEENA TAMANG	NR	21463H	25/08/2013
MAJ	NEETU KUMARI	NR	21464L	25/08/2013
MAJ	SHIKHA K NAIR	NR	21465N	25/08/2013
MAJ	MANHAU NIANG	NR	21466W	25/08/2013
MAJ	ARUNDHATI	NR	21467Y	25/08/2013
MAJ	MARY JOHNSON K	NR	21468F	25/08/2013
MAJ	PRAGATI NIGAM	NR	21470Y	25/08/2013
MAJ	DIVYA P	NR	21471F	25/08/2013
MAJ	RADHIKA PV	NR	21472K	25/08/2013
MAJ	POOJA RAI	NR	21473M	25/08/2013
MAJ	PADAM RAGINI	NR	21474P	25/08/2013
MAJ	SATWINDERJIT KAUR	NR	21475X	25/08/2013
MAJ	REENA KUMARI	NR	21476A	25/08/2013
MAJ	SHIKHA GUPTA	NR	21478L	25/08/2013
MAJ	SONIA TRIPATHI	NR	21479N	25/08/2013
MAJ	VANDANA KUMARI	NR	21480H	25/08/2013
MAJ	RITU RAI	NR	21482N	25/08/2013
MAJ	SEEMA KAPSE	NR	21483W	25/08/2013
MAJ	JISHA B	NR	21484Y	25/08/2013

RANK & NAME		PERS NO		DATE OF PROMOTION
MAJ	SWETA SHARMA	NR	21485F	25/08/2013
MAJ	SUSY ANAND	NR	21486K	25/08/2013
MAJ	KATYANI	NR	21487M	25/08/2013
MAJ	RAKHI	NR	21488P	25/08/2013
MAJ	RITU DAGUR	NR	21489X	25/08/2013
MAJ	SONIYA PARVEEN	NR	21490M	25/08/2013
MAJ	INDULEKHA KA	NR	21492X	25/08/2013
MAJ	ARPANA PINKY	NR	21495L	25/08/2013
MAJ	BHARTI DEVI	NR	21498Y	25/08/2013
MAJ	JYOTSNA SINGH	NR	21506M	25/08/2013
MAJ	NILIMA DEY	NR	21512A	25/08/2013
MAJ	SHIPRA SINGH	NR	21513H	25/08/2013
MAJ	AMITA MISHRA	NR	21514L	25/08/2013
MAJ	MANINDER KAUR	NR	21516W	25/08/2013
MAJ	NAVJEET KAUR	NR	21520Y	25/08/2013
MAJ	PRETTY GEORGE	NR	21521F	25/08/2013

RANK & NAME		PERS NO		DATE OF PROMOTION
MAJ	SIVA PRIYA	NR	21529N	21/08/2013
MAJ	BHAWANA BHARDWAJ	NR	21530H	21/08/2013
MAJ	MEENAKSHI BAJWA	NR	21531L	21/08/2013
MAJ	SHRABANI ROY	NR	21532N	21/08/2013
MAJ	NEERAJ CHAUDHARY	NR	21533W	21/08/2013
MAJ	SANDEEP KUMARI	NR	21534Y	21/08/2013
MAJ	VIDHYA P	NR	21535F	21/08/2013
MAJ	VINEETA SINGH	NR	21536K	21/08/2013
MAJ	KAVITA GURUNG	NR	21537M	21/08/2013

RANK & NAME		PERS NO		DATE OF PROMOTION
MAJ	POMPA MUKHERJEE	NR	21538P	21/08/2013
MAJ	SAMINDER MALIK	NR	21540M	21/08/2013
MAJ	ARUNA ARAVINDAN	NR	21541P	21/08/2013
MAJ	BIJAYA SAHA	NR	21542X	21/08/2013
MAJ	VAIJANTI MATWAL	NR	21543A	21/08/2013
MAJ	NISHI	NR	21545L	21/08/2013
MAJ	ARZOO VOHRA	NR	21546N	21/08/2013
MAJ	TANU JADLI	NR	21547W	21/08/2013
MAJ	DAPPLE D WANKHAR	NR	21548Y	21/08/2013
MAJ	JAGRITI SUKHPAL	NR	21549F	21/08/2013
MAJ	RICHA RAI	NR	21550W	21/08/2013
MAJ	TEENA DASH	NR	21551Y	21/08/2013
MAJ	MAYA NAIR	NR	21552F	21/08/2013
MAJ	POONAM KASHYAP	NR	21553K	21/08/2013
MAJ	KABITA DAS	NR	21554M	21/08/2013
MAJ	M PRIYA	NR	21555P	21/08/2013
MAJ	ANITA NAIR ASHOKAN	NR	21556X	21/08/2013
MAJ	ARSHI SULTANA	NR	21634K	21/08/2013
MAJ	RENUKA DALAL	NR	21635M	21/08/2013

SUNITA KAPOOR
Maj Gen
Addl DGMNS

AIR BRANCH

No. 156, dated 17th June 2014—The President of India is pleased to make the following promotions :—

(JWOs to Sub WOs)

Sl. No.	Ser No.	Rank	Name	Trade	Sub Rank	Date
1	635603	WO	RAMESH CHANDRA SAHOO	CLK GD		05-MAY-13
2	647472	WO	BISHWANATH PRASAD	CLK GD		05-MAY-13
3	648101	WO	BINAY KUMAR THAKUR	CLK GD		05-MAY-13

Sl. No.	Ser No.	Rank	Name	Trade	Sub Rank	Date
4	649052	WO	SURENDRA NATH SAHOO	CLK GD		05-MAY-13
5	649096	WO	AJAY KUMAR	CLK GD		05-MAY-13
6	649244	WO	SAKTHIVELU PITCHAIAPPAN	CLK GD		09-MAY-13
7	649293	WO	SHREEPAL PAL	CLK GD		05-MAY-13
8	649297	WO	UMESH CHANDRA MISHRA	CLK GD		05-MAY-13
9	649301	WO	ARJUN SINGH	CLK GD		05-MAY-13
10	649405	WO	NARENDRA SINGH CHAUHAN	CLK GD		07-MAY-13
11	649459	WO	SUDEVAN B S	CLK GD		09-MAY-13
12	649516	WO	HAR SINGH SYOUTRI	CLK GD		09-MAY-13
13	649549	WO	BASHISHTH NARAYAN SINGH	CLK GD		09-MAY-13
14	649552	WO	RAM KUMAR SINGH	CLK GD		07-MAY-13
15	670022	WO	RAMESH CHANDRA MISHRA	CLK GD		09-MAY-13
16	672690	WO	BHINDER PAL	CLK GD		03-MAY-13
17	692794	WO	S SRINIVASA KUMAR	CLK GD		03-MAY-13
18	693547	WO	DILIP KUMAR	CLK GD		03-MAY-13
19	694972	WO	NIRMAL KUMAR DAS	CLK GD		03-MAY-13
20	700403	WO	SANJAY PATANKAR	CLK GD		03-MAY-13
21	621205	WO	HARNEK SINGH TOOR	IAF (P)		07-JUN-13
22	625074	WO	VIJAY SINGH YADAV	IAF (P)		13-JUN-13
23	625141	WO	HARISH CHANDRA PANDEY	IAF (P)		03-JUN-13
24	625192	WO	AMIYA KUMAR PAIN	IAF (P)		03-JUN-13
25	625440	WO	HARI SINGH RAJPUT	IAF (P)		09-JUN-13
26	625519	WO	CHOCKALINGAM VETRI VENDAN	IAF (P)		03-JUN-13
27	626073	WO	AMAR JEET SINGH DAGAR	IAF (P)		11-JUN-13
28	626172	WO	KAMLESHWAR PD TIWARI	IAF (P)		13-JUN-13
29	626515	WO	KRISHNA VEER RATHI	IAF (P)		13-JUN-13
30	626704	WO	JAGBIR SINGH	IAF (P)		13-JUN-13
31	626968	WO	CHARAN JEET SINGH	IAF (P)		09-JUN-13
32	627030	WO	ANIL KUMAR SINGH	IAF (P)		15-JUN-13
33	627524	WO	LAKHMEE CHAND	IAF (P)		09-JUN-13
34	627525	WO	SURENDRA SINGH SHEKHAWAT	IAF (P)		09-JUN-13
35	627756	WO	DINESH CHANDRA BAGAHLI	IAF (P)		11-JUN-13
36	628049	WO	KRISHNASAMY PASUPATHI	IAF (P)		11-JUN-13
37	628100	WO	ANIL KUMAR	IAF (P)		09-JUN-13
38	628201	WO	PAWAN KUMAR	IAF (P)		11-JUN-13
39	628267	WO	BIBHUDATTA PATTANAIAK	IAF (P)		09-JUN-13
40	629044	WO	MAHTAB SINGH	IAF (P)		11-JUN-13
41	629601	WO	SANJEEV DHALL	IAF (P)		15-JUN-13
42	629668	WO	OMKRAN SINGH	IAF (P)		11-JUN-13
43	705132	WO	DILIP KUMAR JHA	IAF (P)		11-JUN-13
44	619910	WO	DINESH SINGH	MTD		19-MAY-13
45	620954	WO	VINOD KUMAR	MTD		19-MAY-13
46	621144	WO	GADE BALASAHEB SAMPAT	MTD		19-MAY-13
47	621617	WO	KRISHAN SINGH	MTD		19-MAY-13
48	621811	WO	KAMAL KANTI BOSE	MTD		19-MAY-13

Sl. No.	Ser No.	Rank	Name	Trade	Sub Rank Date
49	621930	WO	SURINDER KUMAR	MTD	25-MAY-13
50	621945	WO	RABISH CHANDRA JHA	MTD	19-MAY-13
51	622021	WO	DINABANDHU KAR	MTD	19-MAY-13
52	622171	WO	SACHINDRA PRASAD PATI	MTD	21-MAY-13
53	622509	WO	Y VIJAYAKUMAR	MTD	21-MAY-13
54	622690	WO	KUMAR SURENDER	MTD	21-MAY-13
55	622928	WO	BIRENDRA SINGH	MTD	21-MAY-13
56	623108	WO	SUBRAT PARIAL	MTD	17-MAY-13
57	623704	WO	KAILASH NATH SHARMA	MTD	21-MAY-13
58	623718	WO	SAMBHU NATH MUKHERJEE	MTD	21-MAY-13
59	623851	WO	BIJAYA KUMAR SAHOO	MTD	21-MAY-13
60	624096	WO	RAM NIWAS SINGH	MTD	23-MAY-13
61	624126	WO	ARVINDA RAM	MTD	03-MAY-13
62	624302	WO	SHRI BHUPENDRA KUMAR UPADHYAY	MTD	23-MAY-13
63	624348	WO	JHADESWAR SAHU	MTD	23-MAY-13
64	624363	WO	CHANDI RAM RATHI	MTD	29-MAY-13
65	624369	WO	ARJUN MAHATO	MTD	29-MAY-13
66	624828	WO	RAM KUMAR SINGH KHEDAR	MTD	25-MAY-13
67	624838	WO	ARUN KUMAR SHARMA	MTD	03-MAY-13
68	624896	WO	BABU SINGH TOMAR	MTD	03-MAY-13
69	624898	WO	SURYA NARAYAN PANDEY	MTD	27-MAY-13
70	625179	WO	CHANDRA SEKARAN AJJAN	MTD	03-MAY-13
71	625183	WO	SANNASI GOVINDA SAMY	MTD	27-MAY-13
72	625432	WO	GAJENDRA SINGH TOMAR	MTD	27-MAY-13
73	625593	WO	SURENDRA KUMAR	MTD	27-MAY-13
74	625847	WO	BECHU SINGH	MTD	03-MAY-13
75	625851	WO	BRIJANATH GUPTA	MTD	03-MAY-13
76	625954	WO	RAMCHANDRA SINGH MATWA	MTD	03-MAY-13
77	626158	WO	DAYA RAM SINGH	MTD	07-MAY-13
78	626205	WO	BIJAYA KUMAR RAUTARAY	MTD	05-MAY-13
79	626424	WO	NARESH KUMAR	MTD	05-MAY-13
80	626427	WO	AMRIT LAL DHARIWAL	MTD	05-MAY-13
81	626666	WO	RAVINDRA KUMAR	MTD	05-MAY-13
82	626883	WO	CHANDRA SHAKER SHARMA	MTD	05-MAY-13
83	626890	WO	AWADHESH KUMAR PATHAK	MTD	05-MAY-13
84	626962	WO	JASVIR SINGH	MTD	03-MAY-13
85	627017	WO	MUN MUN MISHRA	MTD	07-MAY-13
86	627129	WO	SATYAVIR RITHALIA	MTD	05-MAY-13
87	627188	WO	KRISHNA KUMAR CHOUDHARY	MTD	07-MAY-13
88	627228	WO	AGYA RAM JAT	MTD	09-MAY-13
89	627229	WO	PURAN CHAND	MTD	05-MAY-13
90	627244	WO	SADHU RAM	MTD	07-MAY-13
91	627489	WO	HARBIR SINGH TEOTIA	MTD	09-MAY-13
92	627777	WO	SATISH CHAND TYAGI	MTD	09-MAY-13
93	627809	WO	SURESH PONNATH	MTD	05-MAY-13

Sl. No.	Ser No.	Rank	Name	Trade	Sub Rank Date
94	627950	WO	NARAIN SINGH	MTD	15-MAY-13
95	627962	WO	OM PARKASH KHROLIYA	MTD	09-MAY-13
96	627980	WO	NAIR K S	MTD	07-MAY-13
97	627996	WO	SAGANI BALAKASIAH	MTD	03-MAY-13
98	628080	WO	SHEKHAWAT RAJENDAR SINGH	MTD	09-MAY-13
99	628122	WO	SAHDEV KUMAR BUDHWAR	MTD	09-MAY-13
100	628342	WO	GHANCHY DEVARAM	MTD	15-MAY-13
101	628400	WO	SITARAM GHORAI	MTD	15-MAY-13
102	628431	WO	RAM BARAT YADAV	MTD	15-MAY-13
103	628693	WO	RAJ KUMAR SAINI	MTD	15-MAY-13
104	628708	WO	PRAMOD KUMAR LOHIYA	MTD	15-MAY-13
105	629484	WO	SAHEB SINGH	MTD	17-MAY-13
106	629494	WO	DEEPAK KUMAR SHARMA	MTD	17-MAY-13
107	629495	WO	DARSHAN SINGH KALSI	MTD	15-MAY-13
108	629743	WO	TAPAS CHAKRABORTY	MTD	17-MAY-13
109	705216	WO	RAMAKANT PANDEY	MTD	17-MAY-13
110	705244	WO	SHYAM LAL SHADLE	MTD	17-MAY-13
111	705539	WO	HARSAW ROP SINGH NAGAR	MTD	17-MAY-13
112	706414	WO	SURESH KUMAR	MTD	17-MAY-13
113	706755	WO	NARENDER SINGH HOODA	MTD	15-MAY-13
114	644030	WO	BINDESHWAR PRASAD SINGH	SEW	11-MAY-13
115	657459	WO	KAILASH BABU KATIYAR	SEW	11-MAY-13
116	678826	WO	ARUN PRAKASH SRIVASTAVA	SEW	07-MAY-13
117	695202	WO	PRAMOD KUMAR	SEW	07-MAY-13
118	696930	WO	SHRI VILASH RAI	SEW	09-MAY-13
119	634247	WO	RANBIR SINGH DAHIYA	TELST RTO	05-MAR-13
120	634491	WO	RAJINDER SINGH	TELST RTO	07-MAR-13
121	634494	WO	RAVI KARAN SINGH RAGHAV	TELST RTO	21-MAR-13
122	635299	WO	RAJ NARAYAN CHATURVEDI	TELST RTO	07-MAR-13
123	636964	WO	RAKESH KUMAR	TELST RTO	09-MAR-13
124	637161	WO	AWDHESH KUMAR	TELST RTO	11-MAR-13
125	637168	WO	SURESH PRASAD	TELST RTO	11-MAR-13
126	637222	WO	DILIP KUMAR KUSHWAHA	TELST RTO	09-MAR-13
127	637426	WO	SURYA NARAYAN	TELST RTO	23-MAR-13
128	638226	WO	LAZAR CHELLAKKON	TELST RTO	23-MAR-13
129	639258	WO	PRADYUMNA KUMAR PARIJA	TELST RTO	13-MAR-13
130	639369	WO	ANOWARUL HAQUE SHAIKH	TELST RTO	09-MAR-13
131	639379	WO	DILEEP SINGH	TELST RTO	09-MAR-13
132	639380	WO	SHAHBAS ALI	TELST RTO	09-MAR-13
133	639384	WO	MOHAN SINGH	TELST RTO	09-MAR-13
134	639903	WO	NARAYANA SAMY RAJA PALANI RAJA	TELST RTO	25-FEB-13

Sl. No.	Ser No.	Rank	Name	Trade	Sub Rank	Date
135	640013	WO	SANJAY KUMAR GOYAL	TELST RTO	15-MAR-13	
136	640065	WO	BIRENDER SINGH TAXAK	TELST RTO	15-MAR-13	
137	640135	WO	NOOR MOHMMAD	TELST RTO	27-FEB-13	
138	640299	WO	RAMAN KUMAR CHAUDHARY	TELST RTO	17-MAR-13	
139	640573	WO	ABDUL HAKKIM KATTUMUNDA	TELST RTO	03-MAR-13	
140	640606	WO	ANJAN DATTA	TELST RTO	17-MAR-13	
141	640737	WO	MOOL CHAND SHARMA	TELST RTO	27-FEB-13	
142	715192	WO	RAM JEET	TELST RTO	01-MAR-13	
143	716032	WO	LAKHWINDER SINGH GHOTRA	TELST RTO	19-MAR-13	

YS AWANA
Under Secy

AIR BRANCH

No. 157, dated 18th June 2014—The President is pleased to transfer the under mentioned officer from Flying (Pilot) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Sqn Ldr G Chaturvedi (27986) Adm and Flt Lt V Dwivedi (28001) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining permanent low non-flying medical category i.e, 28 Nov 11 vide Air HQ/21901/28032/PO-3(E) dated 05 Mar 13.

FLT LT JASMEET SINGH (28032) F(P) to Adm wef 28 Nov 11.

SK SINGH
Wg Cdr
JDPO-3(E)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in